

बी सी एम (एन) -502 अंकेक्षण

BCM(N)-502 AUDITING

खण्ड -1	अंकेक्षण और लेखा परीक्षा कार्यक्रम का परिचय (Introduction of Auditing and Audit Programme)
इकाई-1	अंकेक्षण - एक परिचय (Auditing- An Introduction)
इकाई-2	अंकेक्षण का वर्गीकरण (Classification of Audit)
इकाई-3	लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तकनीकें (Audit Programme Techniques)
इकाई-4	अंकेक्षण की तैयारी और प्रक्रिया (Preparation and Procedure of Audit)
इकाई-5	आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण व लेखा परीक्षा (Internal Control, Check and Audit)
खण्ड -2	प्रत्ययन, सत्यापन और और लेखा परीक्षक की नियुक्ति व हटाना (Vouching, Verification and Appointment and Removal of Auditor)
इकाई-6	प्रत्ययन (Vouching)
इकाई-7	सत्यापन और आस्तियों का मूल्यांकन (Verification and Valuation of Assets)
इकाई-8	मूल्यहास, प्रावधान और रिजर्व (Depreciation, Provisions and Reserves)
इकाई-9	नियुक्ति और लेखा परीक्षक को हटाना (Appointment and Removal of Auditor)
खण्ड -3	कम्पनी लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Company Audit and Audit Reports)
इकाई-10	कम्पनी लेखा परीक्षा (Company Audit)
इकाई-11	बैंकिंग कंपनियों की लेखा परीक्षा (Audit of Banking Companies)
इकाई-12	विशेष लेखा परीक्षा (Special Audit)
इकाई-13	लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Audit Reports)
खण्ड -4	विभाज्य लाभ और लाभांश, और खातों की जांच (Divisible Profits and Dividends, and Investigation of Accounts)
इकाई-14	विभाज्य लाभ और लाभांश (Divisible Profits and Dividends)
इकाई-15	लेखा परीक्षक के दायित्व (Liabilities of An Auditor)
इकाई-16	लागत और प्रबंधन लेखा परीक्षा (Cost and Management Audit)
इकाई-17	खातों की जांच (Investigation of Accounts)
इकाई-18	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता (Professional Conduct and Ethics)